



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 कार्तिक 1946 (श10)

(सं0 पटना 1031) पटना, वृहस्पतिवार, 24 अक्टूबर 2024

सं० 10/अग्नि0से0-01-07/2024—12575

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प

23 अक्टूबर 2024

विषय :- बिहार अग्निशमन सेवा के लिए **Uniform, Formation Sign (insignia), Badges Of rank, Peak Cap, Collar Patches** आदि का निर्धारण किए जाने के संबंध में।

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 (संशोधन नियमावली, 2022) के आलोक में गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश सं०-9358, दिनांक-14.09.2022 द्वारा बिहार अग्निशमन सेवा के अन्तर्गत राजपत्रित/अराजपत्रित कोटि एवं गैर संवर्गीय पद का सृजन किया गया है। इस क्रम में महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-5449, दिनांक-19.04.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार अग्निशमन सेवा के पदाधिकारी एवं कर्मी राज्य पुलिस के अनुरूप वर्दी का धारण कर रहे हैं। बिहार अग्निशमन सेवा में नवसृजित राजपत्रित/अराजपत्रित कोटि के पदों के लिए Formation Sign (insignia), Uniform एवं Badges of rank आदि पूर्व से निर्धारित नहीं रहने के कारण बिहार अग्निशमन सेवा के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए Uniform, Formation Sign (insignia), Badges Of rank, Peak Cap, Collar Patches आदि का निर्धारण निम्न रूपेण किया जाता है:-

- बिहार अग्निशमन सेवा के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी **Shoulder Badges** पर विभागीय पहचान के लिए अंग्रेजी में 'B.F.S' या हिन्दीमें 'बि०अ०से०' नाम के Badges धारण करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- बिहार अग्निशमन सेवा के राजपत्रित पदाधिकारी/अराजपत्रित पदाधिकारी एवं कर्मियों के लिए Formation Sign (insignia) के आकार को बिहार पुलिस के insignia के आकार जैसा रखते हुए, इसका Background Colour Red एवं इसपर बिहार अग्निशमन सेवा एवं विभागीय स्लोगन "त्राणाय सेवा महे" देवनागरी (हिन्दी) में बिहार राज्य के प्रतीक चिन्ह बरगद का पेड़ का चित्र अंकित रहेगा तथा इसका रंग Golden Colour होगा।

3. बिहार अग्निशमन सेवा में सभी पदाधिकारी/कर्मियों का वर्दी खाकी (शर्ट एवं पैंट) होगा।
 4. बिहार अग्निशमन सेवा के सभी पदीय संरचनाओं के लिए Maltese Cross में आधारित Badges का डिजाईन का निर्धारण किया गया है (माल्टीज क्रॉस को दुनिया भर में अग्नि सेवा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। माल्टीज क्रॉस सुरक्षा साहस और सम्मान का प्रतीक है। इस प्रतीक का मतलब यह है कि जो अग्नि इस क्रॉस को धारण करता है, वो जन सुरक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार है)। इस Badges को पदाधिकारी/कर्मियों की कमर के दाहिने तरफ Name Plate के ऊपर धारण करेंगे।
 5. बिहार अग्निशमन सेवा में सभी पदाधिकारियों/कर्मियों के Belt एवं Cap के बैच का डिजाईन एकरूप होगा।
 6. बिहार अग्निशमन सेवा के सभी कर्मियों Fire Fighter/Fire Driver बैज अंग्रेजी में बाएँ बाँह पर तथा हिन्दी (देवनागरी) में अग्नि/अग्नि चालक बैच दाहिने बाँह पर धारण करेंगे।
 7. बिहार अग्निशमन सेवा में सभी पदाधिकारी/कर्मियों के पहचान पत्र में एकरूपता के लिए विभागीय स्तर पर Unique Id No. के साथ पहचान पत्र तैयार कर निर्गत किया जाएगा।
- आदेश – आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
किरण माला पँवरिया,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1031-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>